



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939

No. 17]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

आ.अ. 20(अ).—यतः, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और राज्य विधान सभाओं के कार्यक्रम की घोषणा आयोग के दिनांक 09.03.2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/24/2017 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 09-04-2017 (रविवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से 12-04-2017 (बुधवार) को अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 09 मार्च, 2017, की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/24/2017 के द्वारा घोषित जम्मू एवं कश्मीर में 02-श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 06-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं असम में 113-धेमाजी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36-भोरंज (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 09-अटेर एवं 89-बांधवगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 214-ननजनगुड (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान

सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04-लिटिपाड़ा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28-अपर बुरुदुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप-निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इस का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उपनिर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

[सं. 576/एक्जिट/ई.सी.आई./पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस.डी.आर/खण्ड-II/2017]

आदेश से,

के. एफ.विल्फ्रेड, प्रधान सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

**O.N. 20(E).**—Whereas, the schedule for the Bye-Elections to the House of the People and to Legislative Assemblies in the States of Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, NCT of Delhi, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, West Bengal has been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/24/2017, dated 9<sup>th</sup> March, 2017.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M. on 09.04.2017 (Sunday)** and **6.30 P.M. on 12.04.2017(Wednesday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced vide the Commission's Press Note No. ECI/PN/24/2017, dated 09<sup>th</sup> March, 2017 from **2-Srinagar PC, 3-Anantnag PC in Jammu & Kashmir, 6 – Malappuram PC in Kerala, 113- Dhemaji(ST) AC in Assam, 36 - Bhoranj(SC) AC in Himachal Pradesh, 09-Ater AC & 89-Bandhavgarh(ST)AC in Madhya Pradesh, 216 – Kanthi Dakshin AC in West Bengal, 79 – Dholpur AC in Rajasthan, 214 – Nanjangud(SC) AC & 224- Gundlupet AC in Karnataka, 11- Dr. Radhakrishnan Nagar AC in Tamil Nadu, 04 – Litipara(ST)AC in Jharkhand, 28-Upper Burtuk AC in Sikkim, 27-Rajouri Garden AC in NCT of Delhi**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

[No. 576/Exit/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.II/2017]

By Order,

K. F.WILFRED, Principal Secy.